



## भारत के आर्थिक विकास को दिशा देना

यह एडिटरियल 04/01/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ["Reset the Growth Priority"](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत के विकास प्रक्षेपवक्र से संलग्न चुनौतियों की चर्चा की गई है और सुझाव दिया गया है कि बड़े पैमाने पर उच्च-मूल्य रोजगार सृजन के लिये देश को वनरिमाण एवं सेवा, दोनों क्षेत्रों के संयुक्त सामर्थ्य की आवश्यकता है।

### प्रलमिस के लिये:

[सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#), [मेक इन इंडिया](#), [वर्षि आर्थिक क्षेत्र \(SEZs\)](#), [बजट 2022-23](#), [फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना](#), [इंडस्ट्री 4.0](#), [प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#), [PM गतिशक्ति-नेशनल मास्टर प्लान](#), [भारतमाला प्रोजेक्ट](#), [सागरमाला प्रोजेक्ट](#)।

### मेन्स के लिये:

भारत में वनरिमाण और सेवा क्षेत्रों के संवृद्धि चालक, इन क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियाँ, सरकारी पहल और भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक सुधार।

भारत अपने आर्थिक प्रक्षेपवक्र और अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक रणनीतियों के बारे में गंभीर चर्चा में रत है। इन चर्चाओं के बीच एक उल्लेखनीय विकिरण इस रूप में उत्पन्न हो रहा है कि विश्लेषक वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालाँकि, यह लक्ष्य, जो मुख्य रूप से समग्र [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के आसपास केंद्रित है, एक सामान्य नागरिक के हित या कल्याण के महत्त्वपूर्ण विषय की अनदेखी करता है और मुख्यतः प्रतियोगितात्मक सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर अधिक बल देता है।

## भारत के विकास प्रक्षेपवक्र से संलग्न वर्तमान चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना:**
  - **रघुराम राजन और रोहिति लांबा की कृति 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर' (Breaking the Mould: Reimagining India's Economic Future) भारत के विकास मॉडल के समालोचनात्मक परीक्षण का प्रयास करती है।**
  - यह सवाल उठाती है कि क्या औद्योगिक विकास पर सेवा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने से सतत विकास की राह पाई जा सकती है, जबकि यह **वकिसति एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए ऐतिहासिक पैटर्न से एक भटकाव को प्रकट** करता है।
- **वनरिमाण क्षेत्र की चुनौतियाँ:**
  - भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में अपने वनरिमाण क्षेत्र की हस्तिदारी बढ़ाने में वभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ विकास दर 20% या उससे कम रही है।
  - इससे भारत के विकास में एक विशिष्ट चरण को दरकिनार करने, कृषि अर्थव्यवस्था से एक प्रबल सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने और इस तरह के संक्रमण की संवहनीयता के बारे में चर्चा पैदा होती है।
- **वैश्विक व्यापार सेवा विकास का अवसर:**
  - राजन और लांबा सूचना प्रौद्योगिकी के परिष्करण द्वारा **वैश्व व्यापार सेवा विकास** में भारत के लिये एक अवसर की पहचान करते हैं।
  - चूँकि वैश्विक कंपनियाँ व्यावसायिक सेवाओं को अधिकधिक आउटसोर्स कर रही हैं, भारत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते वह **'सकेलेबिलिटी' (scalability) की चुनौती को संबोधित** कर सके।
- **रोजगार संकट और युवा आकांक्षाएँ:**
  - भारत एक रोजगार संकट का सामना कर रहा है, **वर्षिक युवाओं (15-24 आयु वर्ग) के बीच, जहाँ बेरोजगारी दर 40% से अधिक है।**
  - युवा कामगार उच्च आकांक्षाएँ रखते हैं और देश को नज्दी नयिक्ताओं द्वारा पर्याप्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिये त्वरित उपायों की आवश्यकता है।
- **सेवा क्षेत्र मॉडल से संलग्न चुनौतियाँ:**
  - भारत में वर्तमान **सेवा क्षेत्र हाई-टेक सेवाओं में वृद्धि का अनुभव करते हुए भी रोजगार सृजन के मामले में**, विशेष रूप से नमिन मूल्य-वृद्धि एवं नमिन-कौशल सेवाओं में, चुनौती का सामना कर रहा है।

- सेवा क्षेत्र का वभाजन (segmentation) युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप आय स्रोत उत्पन्न करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठाता है।
- **कौशल की कमी और उच्च शिक्षा गुणवत्ता:**
  - भारत में कौशल की कमी सेवा क्षेत्र के नेतृत्व वाले मॉडल के लिये एक उल्लेखनीय चुनौती है। **2.2 मिलियन STEM स्नातक पैदा करने के बावजूद, अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण इनमें से अधिकांश को रोजगार हेतु अयोग्य माना जाता है।**
  - इस समस्या को संबोधित करने के लिये उच्च शिक्षा में नरितर नविश की आवश्यकता है ताकि उच्च मानव पूंजी क्षेत्रों के लिये कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।
- **PLI योजना और तत्काल रोजगार सृजन:**
  - **प्रोडक्शन-लिकिड प्रोत्साहन (PLI) योजना** को भारत में उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिये व्यवसायों को आकर्षित करने के माध्यम से तत्काल रोजगार चुनौती को संबोधित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है।
  - हालाँकि, इस योजना के रोजगार से संबद्ध होने के बजाय उत्पादन से संबद्ध होने और प्रोत्साहन योजनाओं की समाप्ति के बाद व्यवसायों की सुदीर्घता के बारे में अनिश्चितताओं को लेकर वभिन्न चिंताएँ मौजूद हैं।
- **व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता:**
  - भारत की रोजगार समस्या के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वनिरिमाण क्षेत्र मॉडल और सेवा क्षेत्र मॉडल, दोनों को संयुक्त करे।
  - PLI योजनाओं से परे, **नज्ी उद्योग को सकेल बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना भी महत्त्वपूर्ण है** और इसके लिये भूमि एवं श्रम नयामक सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार, राजकोषीय रूप से लागतहीन होते हुए भी, राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- **जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में तत्परता:**
  - 28 वर्ष की औसत जनसंख्या आयु के साथ भारत का **जनसांख्यिकीय लाभांश** त्वरति एवं व्यापक कार्रवाई के अभाव में वरदान के बजाय अभशाप में भी बदल सकता है।
  - सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये उच्च मूल्य-वर्द्धति रोजगार सृजन, नयामक सुधार और उच्च शिक्षा में नविश की वृद्धि का संयोजन आवश्यक है।


## भारत में वनिरिमाण और सेवा क्षेत्र के विकास चालक कौन-से हैं?

- **वनिरिमाण क्षेत्र:**
  - **सरकारी नविश को बढ़ावा:**
    - वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर वनिरिमाण के लिये 2403 करोड़ रुपए और फेम-इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles- FAME-India)** के लिये 757 करोड़ रुपए के आवंटन के रूप में पर्याप्त धन प्रदान किया।
    - इस रणनीतिक नविश का उद्देश्य वनिरिमाण क्षेत्र को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में उन्नतको प्रेरति करना है।
  - **प्रतसिपर्द्धात्मकता बढ़ाना:**
    - भारत के पास एक वृहत अर्द्ध-कुशल श्रम शक्ति, **'मेक इन इंडिया'** जैसी सरकारी पहल, पर्याप्त नविश और एक वशाल घरेलू बाज़ार के रूप में वे प्रमुख घटक मौजूद हैं जो औद्योगिक क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकते हैं।
    - सरकार प्रतसिपर्द्धात्मकता को आगे और बढ़ावा देने के लिये आधार स्थापित करने हेतु मुफ्त भूमि और नरिबाध 24X7 बजली आपूर्ति जैसे प्रोत्साहन प्रदान कर रही है ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतसिपर्द्धी बनाया जा सके।
  - **मज़बूत घरेलू मांग:**
    - भारतीय मध्यम वर्ग के वर्ष 2030 तक वैश्विक उपभोग में 17% के योगदान के अनुमान के साथ घरेलू बाज़ार पर्याप्त वृद्धि के लिये तैयार है।
    - भारत में उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (Appliances and Consumer Electronics- ACE) बाज़ार के वर्ष 2019 में 11 बलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 21 बलियन अमेरिकी डॉलर के होने का अनुमान है, जो वनिरिमति वस्तुओं की मज़बूत मांग का संकेत देता है।
  - **इंडस्ट्री 4.0 में वैश्विक हब क्षमता:**
    - भारत का वनिरिमाण उद्योग तेज़ी से चतुरथ औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) की ओर आगे बढ़ रहा है, जो परस्पर संबद्ध प्रक्रियाओं और डेटा वश्लेषण की वशिषता प्रदर्शति करता है।
    - कई भारतीय कंपनियों, वशिष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रति करने के कारण पहले से ही वैश्विक अग्रणी बन चुकी हैं।
    - ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर बल देने से भारत को उन्नत वनिरिमाण के लिये वैश्विक केंद्र में बदलने की क्षमता प्राप्त हो रही है।
- **सेवा क्षेत्र:**
  - **एक संतुलनकारी कारक के रूप में सेवा व्यापार अधशिष:**
    - भारत के सेवा व्यापार में लगातार अधशिष ने ऐतिहासिक रूप से माल शपिमेंट में पर्याप्त घाटे की भरपाई करने में मदद की है।
    - वत्तीय वर्ष 2020-21 में यह अधशिष 89 बलियन डॉलर तक के उल्लेखनीय स्तर पर पहुँच गया।
    - रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप और नए सरि से बल देने से सेवा व्यापार अधशिष में और वृद्धि की संभावना है, जिससे संभवतः माल नरियात के कारण होने वाले घाटे को समाप्त किया जा सकता है।
  - **ज्ञान-आधारति अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना:**
    - सेवा क्षेत्र भारत को 'असंबली अर्थव्यवस्था' से 'ज्ञान-आधारति अर्थव्यवस्था' में स्थानांतरति करने में महत्त्वपूर्ण

भूमिका नभिता है।

- यह संक्रमण देश के आर्थिक विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिये महत्वपूर्ण है।
- सेवा व्यापार अधिेशिष इस रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है, जो ज्ञान-केंद्रित गतिविधियों के बढ़ते महत्त्व पर बल देता है।
- **कार्यबल विकास के लिये कौशल भारत कार्यक्रम:**
  - विकास करते सेवा क्षेत्र का समर्थन करने और भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये **स्किल इंडिया कार्यक्रम (Skill India program)** शुरू किया गया है।
  - इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक युवाओं को बाजार-प्रासंगिक कौशल में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - कौशल विकास में निवेश के माध्यम से सरकार का लक्ष्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो उभरती सेवा-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप हो।

## ADVANTAGE INDIA



//

## भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- **प्रोडक्शन-लिकिड प्रोतसाहन (PLI)** - घरेलू वनिरिमाण क्षमता को बढ़ावा देने के लिये
- पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना
- **भारतमाला परियोजना** - पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये
- **स्टार्ट-अप इंडिया** - भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को उत्प्रेरित करना
- **मेक इन इंडिया 2.0** - भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और वनिरिमाण केंद्र में बदलना
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान** - आयात निर्भरता में कटौती करना

## विकास को अधिक समावेशी बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **कार्यबल विकास और भागीदारी:**
  - भारत की वृहत और युवा आबादी विशाल कार्यबल क्षमता प्रस्तुत करती है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिये रोज़गार सृजन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल उन्नयन और श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देने (विशेष रूप से महिलाओं के बीच) जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
- **आर्थिक विकास के लिये नज़ी नविश:**
  - भारत सरकार ने नज़ी नविश को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में चिह्नित करते हुए **कारोबार सुगमता को बढ़ाने (Ease of Doing Business)**, कॉर्पोरेट करों को कम करने, क्रेडिट गारंटी की पेशकश करने और **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को आकर्षित करने के विभिन्न उपाय शुरू किये हैं। कारोबार संचालन को और सुगम बनाने के लिये विशेष रूप से भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स में चल रहे सुधार आवश्यक हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना:**



- (c) उर्वरक उत्पादन  
(d) इस्पात उत्पादन

?????: b

### मेन्स:

प्रश्न. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि पर पछिड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अन्तरति होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अन्तरति हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की वशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/navigating-india-s-economic-development>

